

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी 2020—माघ 17, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

अधि. क्र. 45 एफ-1-11-2018-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सांची, जिला रायसेन के लिये आरक्षित वार्डों की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 340, दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 13, को निरस्त करते हुए निम्नानुसार आरक्षित वार्डों की सूची प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, सरदार पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, स्वामी विवेकानंद वार्ड (3) वार्ड क्र. 06, सम्राट अशोक वार्ड (4) वार्ड क्र. 07, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 04, गंगाधर तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, चन्द्र शेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र. 12, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, डॉ. हेडगेवार वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 06, सम्राट अशोक वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, महारानी लक्ष्मी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 04, गंगाधर तिलक वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 05, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, महात्मा बुद्ध वार्ड (3) वार्ड क्र. 10, महाराणा प्रताप वार्ड (4) वार्ड क्र. 14, छत्रपति शिवाजी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार सिंह, उपसचिव.